

SOLARA ACTIVE PHARMA SCIENCES LIMITED

CIN: L24230MH2017PLC291636 Registered Office: 201, Devavrata, Sector 17, Vashi, Navi Mumbai, 400 703 Tel: +91 22 27892924; Fax: +91 22 27892942 Corporate Office: 'Batra Centre', No. 28, Sardar Patel Road, Guindy, Chennai 600 032

Tel: + 91 44 43446700, 22207500; Fax: +91 44 22350278

Email: investors@solara.co.in; Website: www.solara.co.in

NOTICE

NOTICE is hereby given in pursuance of Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation 2015 that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Monday, August 3, 2020, to consider and approve, inter-alia, the unaudited financial results (standalone and consolidated) of the Company for the quarter

The said intimation is also available on the Company's website at http://solara.co.in and on the website of Stock Exchanges at www.nseindia.co.in and www.bseindia.com where the shares of the Company are listed

For Solara Active Pharma Sciences Limited

Date: July 27, 2020 Place: Chennai

S. Murali Krishna Company Secretary Place: Mumbai

Dated: 27th July, 2020



CONTROL PRINT LIMITED CIN: L22219MH1991PLC059800

Regd. Office : C-106, Hind Saurashtra Industrial Estate Andheri-Kurla Road, Marol Naka, Andheri (East). Mumbai 400 059. Phone No. 022-28599065/66938900 E-mail: companysecretary@controlprint.com Website: www.controlprint.com

NOTICE FOR THE ATTENTION OF SHAREHOLDERS OF THE COMPANY 29th ANNUAL GENERAL MEETING AND INFORMATION ON E-VOTING

The 29th Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OAVM") on Friday, August 21, 2020 at 04:00 p.m. (IST), in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India "SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, read with General Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 and General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020, and other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and SEBI (collectively referred to as "relevant circulars"), to transact the business set out in the Notice calling the AGM. Members participating through the VC / OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

In compliance with the relevant circulars, the Notice of the AGM and the standalone and consolidated financial statements for the financial year 2019-20, along with Board's Report, Auditors' Report and other documents required to be attached thereto, have been sent on July 27, 2020 to the Members of the Company whose email addresses are registered with the Company / Depository Participant(s). The aforesaid documents are also available on the Company's website at www.controlprint.com and on the website o he Stock Exchanges, i.e., BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively. The documents referred to in the Notice of the AGM are available electronically for inspection without any fee by the nembers from the date of circulation of this Notice up to the date of AGM. Members eeking to inspect such documents can send an email to secretarialofficer@controlprint com nstruction for remote e-voting and e-voting during AGM:

The Company is providing to its members facility to exercise their right to vote or resolutions proposed to be passed at AGM by electronic means ("e-voting"). Further, the facility for voting through electronic voting system will also be made available at the AGM and members attending the AGM who have not cast their vote(s) by remote e-voting will be able to vote at the AGM.

The Company has engaged the services of CDSL as the agency to provide e-voting facility nformation and instructions relating to e-voting have been sent to the members through e mail. The manner of remote e-voting by members holding shares in dematerialized mode physical mode and for members who have not registered their email addresses is provided in the Notice of the AGM and is also available on the website of the Company and on the vebsite of the Stock Exchanges.

The remote e-Voting facility would be available during the following period:

Commencement of remote e-Voting From 9.00 a.m. (IST) on Tuesday, August 18, 2020 End of remote e-Voting Up to 5.00 p.m. (IST) on Thursday, August 20, 2020 The remote e-voting will not be allowed beyond the aforesaid date and time and the remote e-voting module shall be forthwith disabled by CDSL upon expiry of the aforesaid period. A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficia

owners maintained by the depositories as on the cut-off date, i.e., Friday, August 14, 2020 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or for participation at the AGM Manner of registering / updating email addresses is as below:

- Any person who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after the despatch of the Notice and holds shares as on the Cut-Off Date, may obtain the login-id and password for e-Voting by sending a request a helpdesk.evoting@cdslindia.com or may temporarily get their email registered with the Company's Registrar and Share Transfer Agent, Bigshare Services Private Limited, by clicking the link: https://bigshareonline.com/investorRegistration.aspx and following the registration process as guided thereafter. Post successful registration of the email, the members would get a confirmation on their email id. In case of any queries, members may contact Company's Registrar and Share Transfer Agent, Bigshare Services Private Limited through website https://bigshareonline.com/
- It is further clarified that for permanent registration of Email address. Members are required to register their Email address in respect of Electronic holdings with their concerned Depository Participant(s) and in respect of Physical Holdings with the Company's Registrar and Share Transfer Agent M/s Bigshare Services Private Limited by sending an E-mail at investor@bigshareonline.com / shweta@bigshareonline.com or at Co's email id secretarialofficer@controlprint.com by following due procedure.

However, if a Member is already registered with CDSL for e-voting then existing User ID and password can be used for casting vote.

Members who have cast their vote on resolution(s) by remote e-Voting prior to the AGM will also be eligible to participate at the AGM through VC/OAVM but shall not be ntitled to cast their vote on such resolution(s) again.

f you have any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the e-Voting System, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to nelpdesk.evoting@cdslindia.com or contact Mr. Nitin Kunder (022- 23058738) or Mr Mehboob Lakhani (022-23058543) or Mr. Rakesh Dalvi (022-23058542).

All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be address to Mr. Rakesh Dalvi, Manager, (CDSL,) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com o call on 022-23058542/43.

Control Print Limited Sd/

Date : July 27, 2020 Company Secretary & Compliance Officer

SIL INVESTMENTS LIMITED
CIN NO : L17301RJ1934PLC002761
Regd Office: Pachpahar Road, Bhawanimandi 326 502(Raj.) Ph:(07433)222082 Fax:(07433) 222916; Website: www.silinvestments.in

NOTICE

Pursuant to Regulation 29(1)(a) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Thursday, the 06th August, 2020 inter-alia, to consider, approve and take on record the Un-Audited Financial Results (Standalone and Consolidated) of the Company for the quarter ended 30th June, 2020.

Lokesh Gandhi Company Secretary & Compliance Officer

Anjani Portland Cement Limited CIN: L26942MH1983PLC265166 Regd. Office:A-610, Kanakia Wall Street, 6th Floor, Andheri-Kurla Road,

Chakala Junction, Andheri (East), Mumbai-400093 Website: www.anjanicement.com Tel No: 022-62396051 Email Id: secretarial@anjanicement.com

NOTICE TO THE MEMBERS

Notice is hereby given that the 36th Annual General Meeting ('AGM') of the members of Aniani Portland Cement Limited ('the Company is scheduled to be held on Friday, August 21, 2020 at 12.00 noon (IST through Video Conference ("VC)" / Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the business, as set out in the Notice of the AGM only through e-voting facility.

The AGM will be held only through VC/OAVM in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 and circulars dated May 5 2020, April 8, 2020 and April 13, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs and SEBI Circular dated May 12, 2020. **Facility for** appointment of proxy will not be available for the AGM. The nstructions for joining the AGM electronically are provided in the Notice of the AGM.

Notice of the 36th AGM along with the Annual Report 2019-20 is being sent only through electronic mode to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company or National Securities Depository Limited (NSDL) or Central Depository Services (India) Limited (CDSL) ("Depositories") and will also be available on the Company's website <u>www.anjanicement.com</u> and on the website of the Stock Exchanges i.e. at www.bseindia.com and www.nseindia.com and website of KFin Technologies Private Limited (Kfintech) the Registrar and Transfer Agent at <u>www.kfintech.com</u>.

Members holding shares in physical mode or who have not registered updated their email addresses with the Company, are requested to register / update their email addresses by writing to the Company with details of folio number and attaching a self-attested copy of PAN card as identity proof and self-attested copy of any document (eg. Driving License, Election Identity Card, Passport) in support of the address of the member at secretarial@anjanicement.com or to Kfintech at einward.ris@kfintech.com and Members holding shares in dematerialised mode, who have not registered / updated their email addresses with their Depository Participants, are requested to register update their email addresses with the Depository Participants with whom they maintain their demat accounts.

The Company has engaged the services of Kfintech as the authorised agency for conducting of the e-AGM and for providing e-voting facility. Members can cast their vote online from 10.00 A.M. (IST) on Tuesday, August 18, 2020 to Thursday, August 20, 2020 till 5.00 P.M. (IST). At the end of remote e-voting period, the facility shall be disabled. Facility for e-voting shall also to made available during the AGM to those Members who attend the AGM and who have not already cast their vote. The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend/ participate in the AGM through VC/ OAVM but shall not be entitled to cast their vote again.

Only those members, whose names are recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners (in case of electronic shareholding) maintained by the depositories as on the 'cut-off date' i.e. August 14, 2020 only shall be entitled to avail the facility of remote

Any person who acquires shares of the Company and becomes a mber of the Company after the Notice has been sent electronically by the Company and holds shares as of the 'cut-off date' i.e., August 14, 2020, may obtain the login ID and password by sending a request to KFinTechnologies Pvt. Ltd., Registrars and Share Transfer Agents at <u>einward.ris@kfintech.com</u> providing Folio no. /DP ID and Client ID.

The Company has fixed Friday, August 14, 2020 as the 'Record Date for determining entitlement of Members to dividend, recommended by the Board of Directors of the Company for the financial year ended March 31, 2020. Subject to approval of the Members at the AGM, the dividend will be paid within the prescribed time limit as per Companies Act, 2013 from the conclusion of the AGM, to the Members whose names appear on the Company's Register of Members as on the Record Date, and in respect of the shares held in dematerialised mode, to the Members whose names are furnished by Depositories as beneficial owners as on that date.

As per the relevant circulars, payment of dividend shall be made through electronic mode to the members who have updated their bank account details. Dividend warrants / demand drafts will be dispatched to the registered address of the members who have not updated their bank account details, after normalisation of the postal service.

As per the Income Tax Act, 1961 as amended by the Finance Act, 2020 the Dividends paid or distributed by a Company after 1st April, 2020 deduct Tax at Source (TDS) at the time of making the dividend payment.

Members are requested to submit the documents in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961 at nttps://ris.kfintech.com/form15

Queries/ grievances, if any, with regard to e-voting, may be addressed Company Secretary through e-mail at secretarial@anjanicement.com or call at 022-62396051 OR may please visit Help and FAQs section available at Kfintech's website https://evoting.karvy.com OR contact toll free No.1-800-345400 or contact Mr. Raghunath Veedha on (040) 67161606.

For Anjani Portland Cement Limited

Rohit Taparia Place: Mumbai Company Secretary & Compliance Office Date: 27-07-2020 Membership - A35756

VARUN BEVERAGES LIMITED

Registered Office: F-2/7, Okhla Industrial Area, Phase I,
New Delhi - 110 020; Tel: +91 11 41706720

Corporate Office: Plot No. 31, Institutional Area, Sector - 44,
Gurugram - 122 002 (Haryana), Tel: +91 124 4643100;

Fax: +91 124 4643303, E-mail: complianceofficer@ricorp.in;
Website: www.yarunpensic.com CIM-1-7480001-100501-000000

NOTICE

Pursuant to the provisions of Regulation 47 read with Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI LODR"), Notice is hereby given that a Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Tuesday, August 4, 2020, inter-alia, to consider and approve the Unaudited Financial Results of the Company, both on Standalone and Consolidated basis, for the Quarter and Half Year ended June 30, 2020 and to consider declaration of interim dividend to the Equity Shareholders of the Company for the Financial Year 2020.

Further, in accordance with Regulation 46 of SEBI LODR, the details of aforesaid Meeting are available on website of the Company i.e. www.varunpepsi.com and also on website of Stock Exchanges i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com.

For Varun Beverages Limited Place: Gurugram Sd/-Date: July 27, 2020

Ravi Batra (Chief Risk Officer & Group Company Secretary) KOTHARI

REGD. OFF: "PAN PARAG HOUSE", 24/19, THE MALL, KANPUR – 208 001 PH.: (0512) - 2312171 - 74 & FAX NO.: (0512) 2312058 E-MAIL: rkgupta@kothariproducts.in, Website: http://www.kothariproducts.in CIN: L16008UP1983PLC006254

NOTICE

In supersession of the earlier notice of the company published on 20th July, 2020 regarding Board Meeting of the Company scheduled to be held on 27th July, 2020 and Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, NOTICE is hereby given that theaforesaid meeting of the Board of Directors of the Company will now be held on Friday, the 31st July, 2020, interalia, to consider, approve and take on record its Audited Financial Results (Standalone & Consolidated) for the quarter & year ended on 31st March, 2020 and Annual Accounts for the aforesaid year and to consider recommendation of Dividend, if any, for the aforesaid year. The aforesaid notice can also be seen at the Company's Website at www.kothariproducts.in and also at the www.bseindia.com & www.nseindia.com.

FOR KOTHARI PRODUCTS LIMITED

PLACE: KANPUR DATE: 27TH JULY, 2020

(RAJ KUMAR GUPTA) CS & COMPLIANCE OFFICER FCS-3281

Tech Mahindra Limited

Extract of Audited Consolidated Interim Financial Results of Tech Mahindra Limited and its subsidiaries for the quarter ended June 30, 2020

Tech Mahindra

Registered Office: Gateway Building, Apollo Bunder, Mumbai 400 001 Website: www.techmahindra.com. Email: investor.relations@techmahindra.com CIN: L64200MH1986PLC041370

Profit after tax for the quarter at Rs. 9723 Million, up 21% over previous quarter

Rs. in Million except Earnings per share

Rs. in Million

Sr.No	Particulars	Quarter ended June 30, 2020	Year ended March 31, 2020	Quarter ended June 30, 2019
1	Total Revenue from Operations (Net)	91063	368677	86530
2	Net Profit before tax	12832	50578	12809
3	Net Profit for the period after tax (Share of the Owners of the Company)	9723	40330	9593
4	Total Comprehensive Income for the period (comprising Profit for the period after tax and Other Comprehensive Income after tax)	9959	37917	9077
5	Equity Share Capital	4360	4359	4350
6	Total Reserves	223090	213772	207562
7	Earnings Per Equity Share (Rs)			
	- Basic	11.13	46.21	10.98
	- Diluted	11.07	45.85	10.89

Additional information	on standalone financial i	results is as follows:

Particulars	Quarter ended June 30, 2020	Year ended March 31, 2020	Quarter ended June 30, 2019	
Revenue from Operations	71647	292254	68624	
Profit before tax	11019	53322	10795	
Profit after tax	8542	45345	8227	

Notes:

- 1 The above is an extract of the detailed format of the Standalone and Consolidated Interim Financial Results for the quarter ended June 30, 2020, filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Standalone and Consolidated Interim Financial Results for the quarter ended June 30,2020 are available on the Stock Exchange websites. (www.nseindia.com/www.bseindia.com) and the Company's website at the web-link: https://www.techmahindra.com/en-in/investors/
- 2 The quarterly financial results have been reviewed by the Audit Committee and have been approved and taken on record by the Board of Directors in its meeting held on July 27, 2020.
- 3 The Auditors have issued an unqualified opinion on the Standalone and Consolidated results and have invited attention to certain matters (Emphasis of Matters). The Emphasis of Matters are on account of the financial irregularities committed by the promoters of erstwhile Satyam Computer Services Limited (SCSL) before it was acquired by the Company and certain other related matters. SCSL was amalgamated with the Company in June 2013. The Emphasis of Matters and the Management Response on the same are available as part of the detailed Regulation 33 formats posted on the Stock Exchange websites (www.nseindia.com/www.bseindia.com) and the Company's website (www.techmahindra.com).

Date: July 27, 2020 Place : Mumbai

The above is the extract of the detailed format of Quarterly / Year ended Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

C. P. Gurnani **Managing Director & CEO**

Business Standard DELHI EDITION

Printed and Published by Nandan Singh Rawat on behalf of Business Standard Private Limited and printed at The Indian Express (P) Ltd. A-8, Sector-7, Noida, Gautam Budh Nagar-201301 and published at Nehru House, 4 Bahadur Shah Zafar Marg. New Delhi 110002

Editor : Shyamal Majumdar RNI NO. 57376/1994

Readers should write their feedback at Ph. 011-23720202, Fax :+91-11-23720201 For Subscription and Circulation enquiries please contact:

Ms. Mansi Singh Head-Customer Relations iness Standard Private Limited. H/4 & I/3, Building H,Paragon Centre, Opp. Birla Centurion, P.B.Marg, Worli, Mumbai - 400013 "or sms, SUB BS to 57007"

DISCLAIMER News reports and feature irticles in Business Standard seek to presen in unbiased picture of developments in the narkets, the corporate world and the government. Actual developments can turr out to be different owing to circumstances beyond Business Standard's control and knowledge. Business Standard does not take any responsibility for investment or ousiness decisions taken by readers on the basis of reports and articles published in the ewspaper. Readers are expected to forn

with or stand by the contents of any of the advertisements accepted in good faith and published by it. Any claim related to the advertisements should be directed to the advertisers concerned.

Unless explicitly stated otherwise, all rights reserved by M/s Business Standard Pvt. Ltd Any printing, publication, reproduction transmission or redissemination of the contents, in any form or by any means, is prohibited without the prior written consen of M/s Business Standard Pvt. Ltd. Any such prohibited and unauthorised act by an erson/legal entity shall invite civil and iminal liabilities.

No Air Surcharge

S kotak[®]

As on 31st March 2019 ** As on 31st March 2020

Mumbai, 27th July, 2020

KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED

Registered Office: 27BKC, C 27, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051. Tel.: 61660001 Website: www.kotak.com

STANDALONE FINANCIAL DESLITS FOR THE OLIAPTED ENDED 20TH LUNE 2020

STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30 TONE, 2020						
			₹ in cror			
Particulars	Quarter ended 30 th June, 2020 (Unaudited)	Year ended 31st March, 2020 (Audited)	Quarter ended 30 th June, 2019 (Unaudited)			
Total income from operations (net)	7,685.40	8,294.07	7,944.61			
Net Profit / (Loss) after tax (before extraordinary items)	1,244.45	1,266.60	1,360.20			
Net Profit / (Loss) after tax (after extraordinary items)	1,244.45	1,266.60	1,360.20			
Equity Share Capital	_	956.52	954.67			
Reserves (excluding Revaluation Reserves and Minority Interest as shown in the Balance Sheet of the previous year)	47,558.78**	41,444.00*	41,444.00*			
Basic Earnings per equity share (before extraordinary items) (of $\mathop{\mathfrak{T}}$ 5/- each) (not annualised) $\mathop{\mathfrak{T}}$	6.43	6.37	7.13			
Diluted Earnings per equity share (before extraordinary items) (of ₹ 5/- each) (not annualised) ₹	6.42	6.36	7.12			
Basic Earnings per equity share (after extraordinary items) (of $\mathop{\rlap{}^{\checkmark}} 5$ /- each) (not annualised) $\mathop{\rlap{}^{\checkmark}} $	6.43	6.37	7.13			
Diluted Earnings per equity share (after extraordinary items) (of ₹ 5/- each) (not annualised) ₹	6.42	6.36	7.12			

CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2020

			₹ in crore
Particulars	Quarter ended 30 th June, 2020 (Unaudited)	Year ended 31st March, 2020 (Audited)	Quarter ended 30 th June, 2019 (Unaudited)
Total income from operations (net)	12,323.15	50,299.69	12,129.56
Net Profit / (Loss) after tax (before extraordinary items)	1,852.59	8,593.36	1,932.21
Net Profit / (Loss) after tax (after extraordinary items)	1,852.59	8,593.36	1,932.21
Equity Share Capital	989.40	956.52	954.67
Reserves (excluding Revaluation Reserves and Minority Interest as shown in the Balance Sheet of the previous year)	65,677.60**	56,825.36*	56,825.36*
Basic Earnings per equity share (before extraordinary items) (of ₹ 5/- each) (not annualised) ₹	9.57	44.73	10.12
Diluted Earnings per equity share (before extraordinary items) (of ₹ 5/- each) (not annualised) ₹	9.56	44.68	10.11
Basic Earnings per equity share (after extraordinary items) (of ₹ 5/- each) (not annualised) ₹	9.57	44.73	10.12
Diluted Earnings per equity share (after extraordinary items) (of ₹ 5/- each) (not annualised) ₹	9.56	44.68	10.11

The full format of Quarterly / Year ended Financial Results are available on the Stock Exchanges websites (<u>www.bseindia.com</u> and <u>www.nseindia.com</u> and also on <u>www.kotak.com</u>). By Order of the Board of Directors

For Kotak Mahindra Bank Limited

Dipak Gupta Joint Managing Director

(AN AFFORDABLE HOUSING PROJECT WITH INTEREST SUBSIDY UPTO RS. 2.67 LAKHS UNDER PMAY)

SECTOR-76, (NEAR HALDIRAM NH-8), GURUGRAM (HRY.)

अधिसूचना सं पीएफ - 27/48921 दिनांक 19.08.2013 के माध्यम से टाउन एंड कंद्री प्लानिंग, हरियाणा सरकार द्वारा निर्धारित नियम व शर्तो के अनुसार विकसित करने हेतु प्रस्तावित अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट में अपार्टमेंट बुक करने के लिए जन सामान्य से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। (विवरण विभाग की वेबसाइट, अर्थाट परियोजना विवरण: tcpharyana.gov.in पर उपलब्ध)

कॉलोनाइजर/डेवलपर्सः सनसिटी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड . प्रोजेक्ट स्वीकतियाः लाइसेंस संख्या ३४ वर्ष २०१८ दिनांक ३१.०५.२०१८, बिल्डिंग प्लान स्वीकति मेमो न्या ZP-1255/JD (RD)/2019/20894 दिनांक 30.08.2019, हरियाणा रेरा पंजीकरण संख्या-78 वर्ष 2019

<u>. स्थान:</u> सेक्टर 76, गुरुग्राम, हरियाणा . <u>प्रावधान परियोजना क्षेत्र:</u> 10 एकड़ में फैली हाउसिंग स्कीम में 1464 नंबर अपार्टमेंट में से 716 नंबर

अपार्टमेंट उपलब्ध हैं। पॉलिसी अनुसार, कुल 5 प्रतिग्रत कुल संख्या अपार्टमेंट केवल प्रबंधन कोटे (पहले से आवंटित हैं) एवं 95 प्रतिग्रित कुल संख्या अपार्टमेंट जनता के लिए हैं। सामुदायिक सुविधाएं: 2000 वर्ग फुट का एक सामुदायिक हॉल और 2000 वर्ग फुट का एक आंगनवाडी-सह-केच फ्लैट के विवरण, आबंटन दरें और भुगतान शर्ते:

CATEGORY	NO.OF	CARPET AREA	BALCONY AREA	ALLOTMENT RATE	BOOKING AMOUNT
2BHK	UNIT	SQ. MTR / SQ. FT.	SQ.MTR / SQ. FT.	OF APARTMENT(INR)	5% APROX(INR)
TYPE-1	303	59.00 / 635.08	9.29 / 100.00	2,590,320	1,19,000
TYPE-2	319	54.10 / 582.33	9.29 / 100.00	2,379,320	1,19,000
TYPE-3	47	57.10 / 621.62	9.29 / 100.00	2,536,480	1,19,000
TYPE-4	43	58.20 / 626.46	9.29 / 100.00	2,555,840	1,19,000
TYPE-5	4	56.85 / 611.93	9.29 / 100.00	2,497,720	1,19,000
कुल अपार्टमेंट	716				
gar or ne re	,	भगत	ान योजना		

TYPE-4	43	58.20 / 626.46	9.29 / 100.	00 2,	555,840	1,19,000
TYPE-5	4	56.85 / 611.93	9.29 / 100.	00 2,	497,720	1,19,000
कुल अ	पार्टमेंट 716					
		भु	गतान योजना			
क.सं.	विवरण			किस्त		
1.	आवेदन के	समय		कुल बिकी	मूल्य का 5	प्रतिशत
2.	आवटंन के	15 दिनों के भीतर		कुल बिकी	मूल्य का :	20 प्रतिशत
3.	आवंटन की	प्रथम तारीख* से 6 म	हीने के भीतर	कुल बिकी	मूल्य का	12.5 प्रतिशत
4.	आवंटन की	प्रथम तारीख* से 12 म	महीने के भीतर	कुल बिकी	मूल्य का	2.5 प्रतिशत
5.	आवंटन की	प्रथम तारीख* से 18 म	ाहीने के भीतर	कुल बिकी	मूल्य का ।	2.5 प्रतिशत
-	थातंत्रच की	प्रथम नारीक्त* से २४ :	महीने के भीतर	कल बिकी	गळा का 1	० ६ प्रतिषात

7. आवंटन की प्रथम तारीख* से 30 महीने के भीतर कुल बिकी मूल्य का 12.5 प्रतिशत

8. आवंटन की प्रथम तारीख^{*} से 36 महीने के भीतर कुल बिकी मूल्य का 12.5 प्रतिशत "नोट: आंवटन की प्रथम तारीख 24.02.2020 थीं <u>पार्किगं</u> : प्रत्येक अपार्टमेंट के साथ एक 2 – व्हीलर पार्किगं

टेंटेटिव विनिर्देशों : डाइंग रुम/लॉबी फ्लोरिंग: टाइलें/आईपीएस | डाइंग रुम/लॉबी दीवार की छत की फिनिशि ओबीडी / कलर वाश | बेडहम फ्लोरिंग: टाइलें / आईपीएस बेडहम की दीवार की छत फिनिश: ओबीडी / कलर वाश जावाजा न निर्देश ने पान निर्देश रिजार (देशके आहर्ति) वार्च के अधिकार के हिम्म किया के किया किया किया किया किया क्षेत्राचालय की दीवारें फिनिया: बैतेंस एरिया में 4 फीट तथा जीवीडी क्लार वॉश तक] टाइलें शोचालय फर्श टाइलें / आईपीएस | किचन फ्लोरिंग: टाइल्स / आईपीएस | रसोई की दीवार फिनिया: फ्लार / टाइल काउंटर से ऊपर 2 फीट तक टाइलें / काउंटर तथा शेष क्षेत्र में ओबीडी / कलर वॉश | फिक्श्चर तथा फिटिंग: एकल कटोरा स्टील सिंक एवं सीपी /पीवीसी /पीटीएमटी फिटिंग | बालकनी फर्जः टाइले / आईपीएस | विंडोः एमएस जेड - सेक्शन एव ग्लास / अलु स्टील एवं ग्लास | चौरवाट / दरवाजे: फ्लश डोर /स्किन डोर /फाइबर डोर के साथ एमएस /फाइबर डो फेम |सामान्य क्षेत्र फर्जा: पत्थर / टाइल / आईपीएस | लिफ्ट लॉबी: पत्थर / टाइले / आईपीएस | चाइनावेयर: मानव फिटिंग |इलेक्ट्रिकलः तारों, स्विच एवं सर्किट हेतु आईएसआई चिहित उत्पाद | सुरक्षाः गेटेड परिस

<u>आवेदन की समय सीमा:</u> बुकिंग आरम्भ दिनांक. 22.07.2020 | आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 05.08.2020 | आवेदन फॉर्म हमारे कॉर्पोरेट कार्यालय: सनसिटी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, 218-224, सनसिटी बिज़नेस टॉवर, दूसरी मंजिल, गोल्फ कोर्स रोड, सेक्टर 54, गुरुग्राम 122002, हरियाणा से प्राप्त एव जमा किये जा सकते है तथा पालिसी दिनांक 18.02.2020 के अनुसार आवेदन फॉर्म सीनियर टाउन प्लान गुरुग्राम सर्कल ऑफिस / तीसरी मंजिल हुडा ऑफिस काम्प्लेक्स सेक्टर14 गुरुग्राम से भी प्राप्त किये जा सकते है |अथिक जानकारी के लिए संपर्क करे 7061700000

<u>ात्रता</u> ह. आवेदक को किसी भी प्रचलित कानून के अन्तर्गत वैध रुप से बाध्यकारी अनुबंध में प्रवेश करने से मना नहीं किया

गया हाना चाहिए। १. कोई भी वर्योक्त आवेदन कर सकता है यद्यपि 'प्रधानमंत्री अवास योजना - सबके लिए घर' के अन्तर्गत शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा द्वारा चिन्हत पीएमएवाई लाभार्थी, जिसमें पति /पत्नी या आश्रित बच्चे शामिल हैं, को आवटन में वरीयता दी जायेगी। पहली प्राथमिकता उक्त शहर के चिन्हित लामार्थियों का दी जायेगी, उसके बाद हरियाणा राज्य के अन्य पीएमएवाई लामार्थी को वरीयता दी जायेगी। उसके बाद को पन्हों के लिए ऐसे वयित्त निक्सें पति - पत्नी या आश्रित बच्चों सहित हुडा द्वारा विकसित की गई कॉलोनी /सेक्टर में या हरियाणा, संघशासित प्रदेश चंडीगढ और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के किसी शारी क्षेत्र में किसी लाइसेंस प्राप्त कॉलोनी में जिनका कार् फ्लैट/ प्लॉट नहीं है, उसे फ्लैट के आवंटन में वरीयता दी जाएगी। कोई भी आवंदक क्षेत्रल एक आवंदन कर सकता है। इस नीती के अन्तर्गत सफल आवंदक किसी अन्य कॉलोनी में

किसी अन्य फ्लैट के आवंटन के लिए पात्र नहीं होगा। यदि वह एक से अधिक कॉलोनी में सफल हो जाता / जाती है तो उसके पास केवल एक ही फ्लैट रखने का विकल्प होगा।

अपार्टमेंट का आंवटन उपायक्त या उसके प्रतिनिधि (कम से कम हरियाणा लोक सेवा के संवर्ग का), वरिष्ठ नियोजक (सर्किल ऑफिस) व संबंधित जिले का डीटीपी और संबंद कॉलोनाइजर के प्रतिनिधि वाली एक समिती

ानवाजम (त्ताप्रता जा।करा) य चर्चाबदा जाज या जाडाना जार चच्छ्र फालानाइजर क्ये प्रतानाद्य पाला एक स की उपस्थिति के लॉटरी ड्रा के माध्यम से किया जाएगा। . लॉटरी ड्रा की तिथि निश्चित होने के बाद डेबेलपर द्वारा आवेदकों को लॉटरी ड्रा के दिनांक / समय और स्थान साहीरत विद्यारणों के बारे में सूचित करने के लिए उसी अखबार में एक विज्ञापन जापि क्या जाएया, जिसमें मूच विज्ञापन जारी किया गया था। निरीक्षण व आवंटन के लिए अपनाए गए विस्तृत मानवण्डों तथा समय सीमा के लिए आवंदक सं पीएफ – 27 / 4892। विनाक द्वारा अधिसूचित अफोर्डेबल हार्जिस मीति 2013 भी देख सकते हैं (चित्ररण विभाग की वेबसाइट, अर्थात

tcpharyana.gov.in पर उपलब्ध)

S 706170-0000 © INFO@SUNCITYPROJECTS.COM ⊕SUNCITYAVENUE76.COM

कारपोरेट कार्यालय – सनसिटी बिजनेस टॉवर, 218 – 224, दूसरी मंजिल, गोल्फ कोर्स रो अग्रणी बैंको सिक्टर - 54 गरुग्राम - 122002 , हरियाणा , फोन: 0124 - 4691000 फैक्स: 0124 - 46200010 द्वारा गृह ऋग उपलब्ध पंजीकृत कार्यालयः एलजीएफ-10, वसंत स्काव्यर, प्लॉट-ए, सेक्टर-बी, पॉकेट-बी, कमयुनिर्ट सेंटर, वसंत कंज, नई दिल्ली-110070 (भारत) CIN: U45201DL1996PTC083915

प्रोत्साहक हर आवेदक से अनुरोध करता है कि वह परियोजना सील का निरीक्षण करे और किसी वास्तुशिल्प प्रा योजाना या बिकी विवरणिका से केवल उस पर निर्भर न रहें या प्रभावित न हों, इसलिए आवंटन के लिए आवंदन प्रस्तुत करने पहले व्यक्तिगत निर्णय लेने का अनुरोध किया गया है। यहां दिखाई गई छवियां डिजाइन के संकेत मात्र हैं और केवल उदाहरण व लिए दर्शाए गए हैं। इसके अलावा, वास्तविक आरेख भिन्न हो सकते हैं एवं ऊपर प्रदर्शित एक से समाप्त हो सकता है। परियोजन ग्⁄विनिर्देशों का हरियाणा रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण की वेबसाइट http://haryanarera.gov.in/ के कार्याल में भी देखा जा सकता है, यात्रा समय दिखाया गया है, यदि कोई हो, तो गूगल मानचित्र पर आधारित है जो प्रासंगिक बिंदु यातायात के अनुसार भिन्न हो सकता है। "ऊपर उल्लेखित दर में जीएसटी और अन्य वैधानिक शुल्क शामिल नहीं हैं, यदि ला हों। नियम व शर्ते: । वर्गमीटर 10.7639 वर्ग फुट, "ग्राहक की प्रोफाइल की पात्रता और ऋण राशि के अनुसार अनुदान प्रवान करत है। यह अनुवान की अधिकतम राशि है जो एक ग्राहक प्राप्त कर सकता है और वही अनुवान लाभ उठाने के लिए ऋण राशि के साथ भी जाता है कच्चा ध्यान दें के ऋण को 12 लाख से अधिक स्वीकृत किया जा सकता है लेकिन 12 लाख ऋण राशि के अनुवान का लाभ उठाया जा सकता है।



सूचना सेबी (सूचीबद्ध देयताएं व प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 47 के साथ पुठित विनियम 29 के प्रावधानों अनुपालन में, एतदद्वारा सचित किया जाता कि वित्तीय वर्ष 2019—20 के 31 मार्च, 2002 को समाप्त तिमाही व वित्तीय वर्ष के अंकक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार किया जाएगा औ 31 मार्च, 2020 को समाप्त तिमाही व वर्ष के लिए कंपनी के अंकेक्षित वित्तीय परिणामों (स्टैंडलो व समग्र) सहित अन्य एजेंडा मदों पर विचार अनुमोदन के लिए शुक्रवार 31 जुलाई, 2020 क आयोजित एक प्रस्ताव व्यवसाय द्वारा रिकॉर्ड लिया जाएगा। इस सूचना में शामिल जानकार्र कंपनी की वेबसाइट www.ortelcom.com और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया व बीएसई इंडिया लि. की वेबसाइटों पर भी उपलब्ध है। ऑरटेल कम्यूनिकेशन्स लि.

स्थान : भवनेश्वर दिनांक : 27.07.2020 कंपनी संचिव श्री श्रीगोपाल चौधरी ("आरपी") पंजीकरण र

श्री श्रीगोपाल चौधरी ("आरपी") पंजीकरण सं. IBBI/IPA-001/IP-P01238/2018-2019/11893 के अनुमोदन के साथ जारी (ऑरटेल कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड ऋणशोधन व दिवालियापन कोड 2016 की निगमित ऋणशोधन प्रस्ताव प्रक्रिया के अंतर्गत है। इसके मामले, व्यापार, और परिसंपत्तियों कोड के प्रावधानों के अंतर्गत आदेश दिनांक 01 फरवरी, 2019 द्वारा नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल द्वारा नियुक्त प्रस्ताव व्यावसायिक, श्री श्रीगोपाल चौधारी द्वारा प्रबंधित व्यावसायिक, श्री श्रीगोपाल चौधारी द्वारा प्रबंधित की जा रही हैं। की जा रही हैं।

PUBLIC NOTICE

That our client MR. YOGESH KATARIA son owner of the ONE SHOP on GROUND FLOOR area measuring 8x10 i.e. 80 Sq. Fts. approx, Ground Floor (back side), area measuring 70 Sq. Yds. approx, consisting of Two Bedrooms, Drawing-cum-Dining Kitchen & Two Toilet-cum-bath, ENTIRE SECOND FLOOR AND ENTIRE TO FLOOR with Terrace Rights (upto sky limits) in/ of Property bearing No. 134-A/1 Yds. approx land measuring 125 Sq. comprised in Khasra No.63 situated a HARIJAN COLONY BEGUMPUR, NEW DELHI-110017 and the portion of the said property is free from all encumbrances.

That Smt. Kailash Kataria has executed: Will of the above said portion of the said Property in favour of her son Mr. Yogesh Kataria son of Shri Hari Prasad Kataria by virtue of Will duly Registered as Document No. 281, in Addl. Book No. 3 Volume No. 540 on pages 85 to 88 date 06.03.2020, in the office of the Sub Registrar-VA, New Delhi.

That SMT. KAILASH KATARIA expired on 06.06.2020 at New Delh If any person having any right, title interest, claim or demand of an nature whatsoever in respect of the above said portion of the said Property should intimate us within one month from date of this publication

SACHIN KAUSHIK (Advocate (E.No. D/9498/2019) M-52A, Basement, Malviya Nagar

New Delhi-17, Ph.- 9911363700



मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम एवं ओएनजीसी की सहायक कंपनी Corporate Identity Number: L23209KA1988G01008959 पंजीकृत कार्यालय: मुडपदव, पोस्ट कुत्तेतूर, वाया काटिपल्ला, मंगलूरु - 575030 E-mail: investor@mrpl.co.in Website: www.mrpl.co.in



सेबी लिस्टिंग विनियम 2015 के विनियमन 29 के साथ पठित विनियम 47 के अनुसरण में एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि निदेशक मंडल की बैठक जो **सोमवार, 03 अगस्त 2020** को निर्धारित की गई थी, को पुनर्निर्धारित किया गया है। निदेशक-मंडल की बैठक मंगलवार 04 अगस्त 2020 को आयोजित की जाएगी जिसमें अन्य बातों पर विचार-विमर्श करने के साथ-साथ 30 जून 2019 को प्रथम तिमाही हेतु अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का अनुमोदन किया जाएगा ।

कंपनी की वेबसाइट www.mrpl.co.in और स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com से र्भ उपरोक्त नोटिस संबंधी सूचना प्राप्त की जा सकती है।

स्थान : **मंगलरु**

मंगलर रिफाइनरी एण्ड पेटोकेमिकल्स लिमिटेड के लिए ह./- दिनेश मिश्रा कंपनी सचिव

आईए, हम एक साथ मिलकर स्वच्छ भारत का निर्माण करें।



दिनांक: 27/07/2020

डीएमआई फाइनेन्स प्राइवेट लिमिटेड

विक्रय सह नीलामी सुचना

डीएमआई फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी (एओ) होने के नाते अधोहस्ताक्षरी वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूत हित व प्रवर्तन अधिनियम 2002 के साथ पठित प्रतिभत हित (प्रवर्तन) अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत डीएमआई फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के रू. 9.34.80.751/ रूपये नौ करोड़ चौतीस लाख अस्सी हजार सात सौ इक्यावन मात्र) दिनांक 24 जलाई. 2020 तक + ब्याज, लागने इत्यादि प्रतिभत ऋण की वसली हेत नीचे उछिरि हणियों के निम्न संपत्तियों के क्रय हेत निवदा/उद्धरण आमंत्रित करता है। सम्पत्तियां जहां है और जो कछ है और बिना किसी संसाधान के आधार पर बेची जाएगी। ऋणियों /जमानतदारों / | (1) एसएसजी इन्फ्राटेक प्राईवेट लिमिटेड, पता- डी-835, न्यू फ्रेन्ड्स कॉलोनी, दिल्ली- 110065 ,

बंधककर्ताओं के नाम (2) जेपीएस रीनफोर्स्ड प्राईप्स प्राईवेट लिमिटेड, पता- डी-835, न्यू फ्रेन्ड्स कॉलोनी, दिल्ली- 110065 , (3) श्री हरजीत सिंह व पते

साहनी, (4) श्री अर्जुनप्रीत सिंह साहनी, (5) सुश्री पम्मी साहनी, पता- डी-835, न्यू फ्रेन्ड्स कॉलोनी, दिल्ली- 110065 (6) श्री चरणजीत सिंह साहनी, पता- 22/3 लाजपत नगर, चौक, लखनऊ, उत्तरप्रदेश

प्रतिभृत हित/सम्पत्ति सम्पत्ति के सभी अंश व अंग गठित होते है जिसमें स्वतंत्र भूमि का क्षेत्रफल 4 एकड, खसरा नं. 20 में, किला नं. 2 (8-0), 3 (8-

का ाववरण	0), 4 (8-0), 5 (8-0), गांव किंडावला के राजस्व एस्टट के अंतगत, तहसाल व जिला फरादाबाद, हारयाणा म स्थित।					
आरक्षित मूल्य	जमा धरोहर राशि	सीलबंद निविदा जमा कराने की	निविदा/नीलामी खोलने की	निविदा खोलने		
(板.)	(ईएमडी)	अंतिम दिनांक व स्थान	दिनांक व स्थान	का समय		
रू. 4,10,00,000/- (रूपये चार करोड़ दस लाख मात्र) रू. स्त्राख मात्र)		9 सितम्बर 2020, समयः सांय 5.00 बजे निविदा जमा कराने का पताः डीएमआई फाईनेंस प्राईवेट लिमिटेड, 9-10, तृतीय तल, एक्सप्रेस बिल्डिंग, बहादुरशाह जफर मार्ग, न्यु दिल्ली- 110001 सम्पर्क व्यक्ति- भरत मोहन मुक्कर, टेलीफोन-		प्रातः 11.30 बजे		
		9899209040 एवं विवेक राणा, टेलीफोन- 9818648436 एवं अखिल जैन, टेलीफोन- 9911014154	एक्सप्रेस बिल्डिंग, बहादुरशाह जफर मार्ग, न्यु दिल्ली- 110001			
नोटः प्राधिकत अधिकारी शीर्ष तीन बोली लगाने वालों के बीच अपने विवेक अनमति अंतर-से बोली कर सकता है।						

सम्पन्तियों का बोलीदाता/इच्छक पार्टीयां सम्पन्तियों का निरीक्षण दिनांक 4 सितम्बर, 2020 को प्रातः 11.30 बजे से दोपहर 2.30 बजे के मध्य कर सकत

है। इच्छक पार्टीयां श्री भरत मोहन मक्कर, डीएमआई फाईनेंस प्राईवेट लिमिटेड, मो. 9899209040 एवं विवेक राणा, डीएमआई फाईनेंस प्राईवेट लिमिटेड, मो. 9818648436 एवं श्री अखिल जैन, डीएमआई फाईनेंस प्राईवेट लिमिटेड, मो. 9911014154 से सम्पर्क क सकती है।

नियम एवं शर्ते: इच्छुक पार्टीयां अपनी निविदा सीलबंद कवर के साथ लिफाफे के उपर ("Quotation for Purchase of Properties") के रूप में जमा/भिजव सकती है। (सम्पन्ति के सभी अंग व अंग गठित होते है जिसमें भिम का क्षेत्रफल 4 एकड़, ख़ुसग नं. 20 में, किला नं. 2 (8-0), 3 (8-0), 4 (8-0), 5 (8-0) गांव किडावली के राजस्व एस्टेट के अंतर्गत, तहसील व जिला फरीदाबाद, हरियाणा में स्थित)- जमा धरोहर राशि (ईएमडी) पे ऑर्डर/डीडी के द्वारा "डीएमआ

फाइनेंस प्राईवेट लिमिटेड" नई दिल्ली के पक्ष में देय होगी। ईएमडी जमा कराने में रूचि न रखने पर सफलतम बोलीदाता के असफल होने पर ईएमडी जब्त की जाएगी।

निविदाएं / बोलियां किसी भी संबंध में अपेक्षित ईएमडी के लिए डीडी / पीओ के साथ अहस्ताक्षरित या अधूरी है तो प्राधिकृत अधिकारी के विवेक पर खारिज कि जाने के लिए उत्तरदायी हैं।

उपरोक्त संपत्तियां उक्त वर्णित आरक्षित मल्य से नीचे नहीं बेची जाएगी।

सफलतम बोलीदाता को 25 प्रतिशत राशि ईएमडी को शामिल करते हुए उसी दिन तुरत "डीएमआई फाईनेंस प्राईवेट लिमिटेड" नई दिल्ली के पक्ष में पे ऑर्डर/डीडी वे जरिये जमा करानी होगी शेष 75 प्रतिशत राशि 15वे दिवस को या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उसके विवेकाधीन सहमित से लिखित में की गई समयावृद्धि के भीतर जमा करानी होगी। प्राधिकृत अधिकारी लिखित में भुगतान समय के लिए स्वयं के विवेकाधीन होगा। कथित दिनांक को भुगतान करने में असफल होने पर ईएमडी एवं तब तक सभी भुगतान बिना सूचना के जब्त कर लिए जाएंगे और संपत्तियों की पुनः बिक्री की जाएगी।

ऐसे सभी भगतान केवल डीएमआई फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली के पक्ष में तैयार किए गए पे ऑर्डर या डिमांड डाफ्ट के रूप में किए जाएंगे सफलतम बोलीदाता कानूनी / बिक्री के लिए देय शुल्क / प्रभार जैसे कि स्टांप ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क, कर, लेवी, इत्यादि लिवांड के अनुसार लागू विधि खर्चे वहन

करने होंगे। प्राधिकृत अधिकरी सरकारी किसी भी शुल्क, ग्रहणाधिकार, अतिक्रमण, संपत्ति कर या बिक्री के तहत संपत्तियों के संबंध में किसी अन्य देय के लिए जिम्मेदार नर्ह होगा। डीएमआई फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेंड इस उद्घोषणा में किसी भी त्रुटि या चूक के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

डीएमआई फाईनेंस प्राईवेट लिमिटेड - ततीय तल. एक्सप्रेस बिल्डिंग, बहादरशाह जफर मार्ग, न्य दिल्ली - 110002 से सामान्य कार्यघण्टों के दौरान निविदा फार प्राप्त कर सकते है। निविदा फार्म के साथ, इच्छुक बोलीदाता को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जारी पेन कार्ड की प्रति और अपना पहचान प्रमाण एवं आवासीय प्रमाण

जैसे आधार कार्ड अथवा पासपोर्ट अथवा इलेक्शन कमीशन कार्ड अथवा ड्राईविंग लाइसेंस भी सलंग्न करना होगा। उक्त संपत्ति के संबंध में सभी बकाया और बकाया राशि अर्थात् कर, रखरखाव, बिजली, जल कर या अन्य सभी बकाया राशि सहित सफल बोलीदाता / क्रेता द्वा

भुगतान किया जाएगा। 10. प्राधिकत अधिकरी प्रस्ताव में मधार के लिए उच्चतम बोली लगाने वाले के साथ बातचीत करने का अधिकार और किसी भी कारण को बताए बिना नीलामी / बिक्र को स्थगित करने अथवा रह करने का पूर्ण अधिकार रखता है।

 विक्री डीएमआई फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पृष्टि के अधीन है। 12. बिक्री प्रमाणपत्र को पंजीकृत करने के लिए सफल बोलीदाता की एकमात्र जिम्मेदारी होगी और बिक्री प्रमाणपत्र के पंजीकरण की दिशा में सभी खर्चों को वहन करेगा। 13. यदि ऋणियों/जमानतदारों/बंधककर्ताओं डीएमआई फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड की बकाया राशि का भुगतान नीलामी की तारीख / बिक्री की पृष्टि से पहले करते हैं, ते नीलामी / बिक्री को रोक दिया जायेगा।

 प्राधिकृत अधिकरी के सर्वोत्तम ज्ञान और जानकारी में, उपर्युक्त संपत्तियों पर कोई अन्य प्रभार ज्ञात नहीं है। 15. बोली हस्तांतरणीय नहीं है।

16. डीएमआई फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड या उसका कोई भी कर्मचारी बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति के संबंध में किसी भी व्यक्ति के किसी भी टावे के लिए उत्तरदायी नई होगा।

17. यह प्रकाशन सूचना ऋणियों, जमानतदारों और बंधककर्ताओं को 30 दिनों का नोटिस भी है, जो उपरोक्त दिनांकों को बिक्री के इरादे से रखी गई बकाया पूरी नहीं होने के संबंध में हैं। यदि ऋणियों, जमानतदारों और बंधककर्ताओं के पास निजी बिक्री या उद्धरण द्वारा किसी व्यक्ति को संपत्तियों को बेचने का ऐसा कोई प्रस्ताव है, तो 7 दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरी को सूचित किया जा सकता है।

सरफेसी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत वैधानिक 30 दिवस की विक्रय सूचना

ऋणियों, जमानतदारों और बंधककर्ताओं को बोली लगाने की दिनांक से पूर्व कुल बकाया राशि का भुगतान करने के लिए सूचित किया जाता है, असफल होने पर प्रतिभूत हार्णया, जनानपास जार चन्यान्यान्य कार्या है। संपत्तियों की नीलामी की जाएगी और शेष राशि, यदि कोई हो, ब्याज, लागत सहित आपसे वसूल की जाएगी। (प्राधिकृत अधिकारी) नामः भरत मोहन मुक्कर

स्थान: नई दिल्ली दिनांक: 28.07.2020 डीएमआई फाइनेंस प्राईवेट लिमिटे

विज़नेस स्टैंडर्ड नई दिल्ली | 28 जुलाई 2020 मंगलवार

बैंक ऑफ बड़ीटा Bank of Barod शाखा कार्यालय : नोएड़ा कॉम्प्लैक्स

शुद्धिपत्र मैसर्स इनवेस्टर्स इन इंफ्रास्टक्चर प्रा. लि. व संबंध में सर्वसाधारण के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना 06.07.2020 को बिजनेस स्टैंडर्ड (दिल्ली संस्करण) में प्रकाशित हुई थी। बैंक द्वारा ऑक्शनटाइगर की बजाय ई-बीक्रय पोर्टल के माध्यम से ई-नीलामी का आयोजन करने का निर्णय लिया गया है। ई—नीलामी 21.08.2020 को आयोजित की त्तामगी ।

, १९५॥./ — प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा दिनांकः 27.07.2020 स्थान : नोएड़ा

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

सार्वजनिक सूचना

नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र

के अंतर्गत M/s Nandi Infratech Pvt.Ltd के भूखंड संख्या GH-02C सेक्ट्र-10 ग्रेटर नोएड पर दिनांक 19.09.2014 को मानचित्र स्वीकृति प्रदा की गयी थी । तदोपरांत बिल्डर द्वारा (Tower-B,C D,E & Part Commercial) के अधिभोग प्रमाण प (Occupancy Certificate) हेतु दिनांक 23.07.2020 को आवेदन किया गया है, जिसमें पूर्व स्वीकृत फ्लैटो के डिजाईन् व अन्य कृत्पिय संशोधन किया जा रहा है। अतः प्रत्येक आवंटियो द्वारा अपनं consent दी गई है या नहीं के सम्बंध में अपार्टमें ओनर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते है । इर सम्बन्ध में बिल्डर द्वारा प्रस्तुत संशोधित declaration एवं मानचित्र का परीक्षण किसी भी कार्य दिवस सुबह 9.30 से सांय 6 बजे के मध्य नियोजन विभा के displayed में नक्शे में किया जा सकता है मानचित्रों में उ॰प्र॰ अपार्टमेंट एक्ट -2010 टे प्रावधानों के अंतर्गत उक्त प्रस्तावित संशोधन कं घोषणा के सम्बंध में अपार्टमेंट स्वामियों / संघ को नोटिस जारी करने के साथ 30 दिन के अंद आपत्तियाँ ातियाँ आमंत्रित की जाती है अतः उपरोक्त_्के निहतार्थ अपनी आपत्तिर

लिखित रूप से अपने आवंटन पत्र, नाम, पता एव लिखित रूप से अपने आवटन पत्र, नाम , पता एर दूरभाष नम्बर के साथ कार्यालय समय व कार दिवस में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के मुख्य प्रशासनिक कार्यालय, भूखंड संख्या-1,नाँलेज पार्क -04, ग्रेट नोएडा में स्थित वरिष्ठ प्रबंधक (वास्तुo) विभाग ग निर्धारित अवधि अर्थात सचना प्रकाशित होने के 3 दिवसों में प्राप्त करायी जा सकती है।

वरिष्ठ प्रबंधक (वास्तु०) ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण

शाखा का नाम/कर्जदार एवं जमानती का नाम एवं

VARUN BEVERAGES LIMITED

Registered Office: F-2/7, Okhla Industrial Area, Phase I, New Delhi - 110 020; Tel: +91 11 41706720 Corporate Office: Plot No. 31, Institutional Area, Sector - 44, Gurugram - 122 002 (Haryana), Tel: +91 124 4643100; Fax: +91 124 4643303, E-mail: complianceofficer@rjcorp.in; Website: www.varunpepsi.com, CIN: L74899DL1995PLC06983

NOTICE

Pursuant to the provisions of Regulation 47 read with Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI LODR"), Notice is hereby given that a Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Tuesday, August 4, 2020, inter-alia, to consider and approve the Unaudited Financial Results of the Company, both on Standalone and Consolidated basis, for the Quarter and Half Year ended June 30. 2020 and to consider declaration of interim dividend to the Equity Shareholders of the Company for the Financial Year 2020

Further, in accordance with Regulation 46 of SEBI LODR, the details of aforesaid Meeting are available on website of the Company i.e. www.varunpepsi.com and also on website of Stock Exchanges i.e.

www.bseindia.com and www.nseindia.com. For Varun Beverages Limited Place: Gurugran Date: July 27, 2020

(Chief Risk Officer & Group Company Secretary)

KAJARIA CERAMICS LIMITED

CIN: L26924HR1985PLC056150 Regd. Office: SF-11, Second Floor, JMD Regent Plaza, Mehrauli Gurgaon Road,

Village Sikanderpur Ghosi, Gurgaon, Haryana-122001, Tel.: +91-124-4081281 Email id: investors@kajariaceramics.com Website: www.kajariaceramics.com

NOTICE

Pursuant to Clause 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. Notice is hereby given that the meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Friday, August 7, 2020 at its Corporate office situated at J-1/B-1(Extn.), Mohan Co-operative Industrial Estate, Mathura Road, New Delhi-110044, inter-alia, to consider and approve the Unaudited Financial Results of the Company for the guarter ended June 30, 2020.

The above details of the said meeting are also available on the website of the Company i.e. www.kajariaceramics.com and also at website of the stock exchanges www.nseindia.com and www.bseindia.com.

For Kajaria Ceramics Limited Sd/

Place: New Delhi Dated: July 27, 2020

R.C. Rawat COO (A&T) & Co. Secretary

ন্দে COSMO FILMS

कोस्मो फिल्मस लिमिटेड

पंजी. कार्या.: 1008, डीएलएफ टॉवर-ए, जसोला डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, नई दिल्ली-110025 CIN: L92114DL1976PLC008355, फोन: 011-49494949, फैक्स: 011-49494950

ई—मेलः investor.relations@cosmofilms.com, वेबसाइटः www.cosmofilms.com कंपनी के शेयरधारकों के लिए सूचना विषयः अप्रदत्त / अदावाकृत लामांश के दावे के लिए रिमाइंडर और आईईपीएफ प्राधिकारी को

इक्विटी शेयरों का अंतरण शेयरधारकों को एतदद्वारा सचित किया जाता है कि निवेशक शिक्षा एवं संरक्षा निधि प्राधिकरप लेखाकरण, लेखापरीक्षा, अंतरण एवं वापसी) नियम, 2016 (आईईपीएफ नियम) और उसके अधीन अनुवर्ती संशोधन के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 124(6) के प्रावधानों के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2012—13 के दौरान घोषित लाभांश जो सात वर्षों की अवधि से अदावाकृत है, उसे 30 अक्टूबर, 2020 को या उसके बाद आईईपीएफ के पास जमा किया जाएगा संगत शेयर जिन पर निरंतर सात वर्षों की अवधि के लिए लामांश अदावाकृत है, उन्हें भी नियमों के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए अंतरित किया जाएगा।

कंपनी ऐसे शेयरों को आईईपीएफ को अंतरित नहीं करेगी जहां ऐसे शेयरों के अंतरण पर किसी भी न्यायालय/अधिकरण ने रोक लगाने का विशेष आदेश दिया हो या जहां शेयर डिपॉजिटरीज अधिनियम, 1996 के अधीन रेहन / बंधक हैं।

आईईपीएफ नियमों के अनपालन में. कंपनी ने ऐसे सभी शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से सचना भेज दी है और आईईपीएफ को अंतरित किये जाने वाले ऐसे शेयरों का विवरण हमारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। संबंधित शेयरधारक आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित किये जाने वाले अपने शेयरों के विवरणों के सत्यापन के लिए वेब-लिंक http://www.cosmofilms.com/shareholders-information को

शेयरधारकों से अनुरोध है किया जाता है कि आईईपीएफ को ऐसे किसी अंतरण से पूर्व वित्तीय वर्ष 2012—13 एवं उससे आगे की अवधि के दौरान घोषित अंतिम लामांश का दावा कर लें। संबंधित शेयरधारक जिनके शेयर भौतिक प्रारूप में धारित है और आईईपीएफ को अंतरित किये जाने के लिए योग्य हैं, कृपया नोट करें कि कंपनी आईईपीएफ को शेयरों के अंतरण के प्रयोजन हेतु उनके द्वारा घारित मूल शेयर प्रमाणपत्रों के बदले डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करेगी और ऐसे शेयरों के जारी होने पर कंपनी बुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्रों को डिमेट प्रारूप में बदलने और आईईपीएफ के पक्ष में अंतरण के लिए कॉर्पों रेट कार्यकलाप के माध्यम से डिपॉजिटरी को सचित करेगी। मूल शेयर प्रमाणपत्र जो मूल शेयरधारक के नाम पर पंजीकृत है, बाद में स्वतः ही निरस्त हो जाएंगे और गैर-विनिमेय माने जाएंगे।

संबंधित शेयरधारक जिनके शेयर डिमेटिरियलाइज्ड प्रारूप में है, कृपया नोट करें कि कंपनी आईईपीएफ के डिमेट खाते में शेयरों के अंतरण के लिए कॉर्पोरेट कार्यकलाप के माध्यम से डिपॉजिटरी को सूचित करेगी। शेयरघारक कृपया नोट करें कि अदावाकृत लाभांश एवं शेयर एक बार आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित किये जाने के बाद आईईपीएफ नियमों (आईईपीएफ वेबसाइट http://www.iepf.gov.in देखें) में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए आईईपीएफ प्राधिकरण के पास अपना दावा कर सकर्त हैं और इस संबंध में कंपनी के पास कोई दावा नहीं किया जा सकेगा यदि कंपनी को संबंधित शेयरधारकों से 29 अक्टूबर, 2020 तक या उससे पूर्व कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है जो कम्पनी ऐसे शेयरों / लाभांश को आईईपीएफ प्राधिकरण के पास जमा कर देगी। कृपया ध्यान दें कि ऐसे शेयरों पर भविष्य में उपार्जित सभी लाभ, लाभांश भी आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित कर दिये जाएंगें।

इस विषय में किसी भी पूछताछ के लिए आप investor.relations@cosmofilms.com पर ई—मेल भेज सकते हैं या कंपनी के राजस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट, मैसर्स अलंकित एसाइमेंट्स लिमिटेड, 4ई/2, अलंकित हाउस, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली —110055, ई—मेलः rta@alankit.com से सम्पर्क कर सकते हैं।

कते कोस्मो फिल्मस लिमिटेड हस्ता /-ज्योति टीक्षित

ई-नीलामी

29.08.2020 को

ईएमडी तथा ईएमडी जमा करने की अन्तिम तिथि

(बिक्री की पूर्णता तक प्रति 5

मिनट की अवधि के

असीमित विस्तार के साथ)

स्थान: नर्ड दिल्ली दिनांकः 27 जुलाई, 2020

आरक्षित मूल्य

क्रेडिट रिव्यू, मॉनिटरिंग एण्ड रिकवरी सेक्शन केनरा बेंक क्षेत्रीय कार्यालय मध्य दिल्ली, दूरभाष नं. 011-26414751 Canara Bank

प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) एवं 9 के अंतर्गत ई-नीलामी (ऑन लाइन नीलामी) द्वारा अचल सम्पत्तियों की बिक्री सूचना एतद्द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत कब्जे में ली गई यहां नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियों की अधोलिखित नियमों एवं शर्तों पर ई-नीलामी द्वारा बिक्री की जाएगी। ई-नीलामी की व्यवस्था वेबसाईट www.indianbankseauction.com के माध्यम से सेवा प्रदाता मैसर्स कैनबैंक कम्प्यूटर सर्विस लि. की जाएगी।

निर्दिष्ट तिथि को कुल

Ravi Batra

पता देयताएँ निरीक्षण की तिथि खाता सं. केनरा बैंक, एनएससी पूसा शाखा, दिल्ली स्विफ्ट वीडीआई (एनएम)-डीजल 30.06.2020 तक कुल देयता ₹. 2,50,000/-रु. 25,000.00 ₹. 519001.97 + 28.08.2020 को 4 बजे अप. तक जमा किया जाना है कर्जदार पंजीकरण सं. DL6CN7453 1. श्री योगेश जायसवाल पुत्र दीप चन्द, निवासी फ्लैट सं. खाता : केनरा बैंक खाता सं. : 91213020000039. मॉडल : 2015. रंग : सफेद (अन्य व्यय) 24.08.2020 और 25.08.2020 को 10.00 902, टॉवर-16, ऑरेंज काउन्टी, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद, इंजन नं. : D13A588678 आईएफएससी कोड : SYNB0009121, और बजे पर्वा. से 5.00 बजे अप. के बीच खाता नामः बीज भवन एनएसबी पुसा चेसिस नं. : MA3FHEB1S00925644 उत्तर प्रदेश मारुति वैगन आर 2. केनरा बैंक, सिविक सेंटर मिंटो रोड, नई दिल्ली ₹. 12,600.00 17.07.2020 तक कुल देयता रु. 1,26,000/ पंजीकरण सं. DL1RTB 3899 मॉडल : 2016, 28.08.2020 को 5 बजे अप. तक जमा किया जाना है कर्जदार : रंग : सुपीरियर सफेद इंजन नं. : 7773017, श्री बलराम पुत्र श्री राम शाबाद, निवासी म.नं. 101ए ₹. 5,71,355.43 + खाता : केनरा बैंक खाता नं. : 91693020000015, 24.08.2020 और 25.08.2020 को 10.00 जी/एफ बी-ब्लॉक निकट कमांडर चौक, विकास नगर, चेसिस नं. : MA3EWDE1S00B08579 रु. 38,940/-(अन्य व्यय) आईएफएससी कोड : SYNB0009169. बजे पूर्वा. से 5.00 बजे अप. के बीच उत्तम नगर, डीके मोहन गार्डन, दिल्ली-110059 र. 6.10.295.36/-. केनरा बैंक, सिविक सेंटर मिंटो रोड, नई दिल्ली हुण्डई एसेन्ट पंजीकरण सं. DL 1RTA1300, 17.07.2020 तक कल देयता रु. 90,000/-रु. 9000.00 28.08.2020 को 5 बजे अप. तक जमा किया जाना है कर्जदार : मॉडल : 2016, रंग : सफेद, ₹. 5,08.046.05/-24.08.2020 और 25.08.2020 को 10.00 श्री सन्तोष कुमार पुत्र श्री हरि राम यादव निवासी 128-ए, इंजन नं. : G4LAFM869498, (अन्य व्यय) खाता : केनरा बैंक खाता नं. : 91693020000015, बजे पूर्वा. से 5.00 बजे अप. के बीच चेसिस नं. : MALA741CLFM150282 न्यू खन्ना मार्केट, लोधी रोड, दिल्ली-110003 आईएफएससी कोड : SYNB0009169. (ई-सिंडीकेट बैंक) निर्माण विहार शखा, नई दिल्ली-हुण्डई एसेन्ट पंजीकरण सं. DL 1RT7787, 23.07.2020 तक कुल देयत रु. 52,000/-रु. 5200.00 28.08.2020 को 5 बजे अप, तक जमा किया जाना है 110092 मॉडल : 2015 रंग : सफेद ₹. 3,26,767.12+ इंजन नं : G4LAFM803268 केनरा बैंक खाता नं : 91693020000050 भावी ब्याज एवं अन्य कर्जदार : 24.08.2020 और 25.08.2020 को 10.00 श्री अकरम खान पुत्र श्री मोहम्मद उस्मान, ई-13, सी-04, चेसिस नं. : MALA741CLFM136282 प्रभार/व्यय (अन्य व्यय) आईएफएससी कोड : SYNB0009050. बजे पूर्वा. से 5.00 बजे अप. के बीच टी हट्स नाला, न्यू सीलमपुर, नई दिल्ली-110053 (ई-सिंडीकेट हुण्डई एसेन्ट, पंजीकरण सं. DL 1RTA 9034 20.07.2020 तक कल देयता रु. 95,000/-9500.00 28.08.2020 को 5 बजे अप. तक जमा किया जाना है मॉडल : 2016 रंग : सफेद, रु. 5,70,529.75 + कर्जदार इंजन नं. : G4LAFM829103 भावी ब्याज एवं अन्य केनरा बैंक खाता नं. : 91693020000050, 24.08.2020 और 25.08.2020 को 10.00 श्री चाँद मोहम्मद पुत्र श्री रहीस निवासी ई-13 सी, 20 टी चेसिस नं. : MALA741CLFM143559 आईएफएससी कोड : SYNB0009050. प्रभार/व्यय बजे पर्वा से 5.00 बजे अप के बीच हट्स, निकट नाला, न्यू सीलमपुर, नई दिल्ली (ई-सिंडीकेट बैंक) निर्माण विहार शाखा, नई दिल्ली-हुण्डई एसेन्ट पंजीकरण सं. DL 1RTA2371 20.07.2020 तक कुल देयताएँ रु. 1,25,000/ ₹. 12,500.00 28.08.2020 को 5 बजे अप. तक जमा किया जाना है रु. 7,01,534.09 + भावी 110092. मॉडल : 2016, रंग : सफेद कर्जदार इंजन नं. : G4LAGM915165 ब्याज एवं अन्य प्रभार/व्यय केनरा बैंक खाता नं. : 91693020000050, 24.08.2020 और 25.08.2020 को 10.00 श्री रिंकू पुत्र श्री विजय सिंह निवासी ए-294, गली नं. 2बी, चेसिस नं. : MALA741CLGM158830 आईएफएससी कोड : SYNB0009050. बजे पूर्वा. से 5.00 बजे अप. के बीच अम्बिका विहार, शिव विहार, करावल नगर, गोकलपुरा, नई दिल्ली-110094 7. (ई-सिंडीकेट बैंक) निर्माण विहार शखा, नई दिल्ली-हण्डई एसेन्ट पंजीकरण सं. DL 1RT 8307 20.07.2020 तक कल देयता ₹. 56,000/-₹. 5600.00 मॉडल : 2015. रंग : सफेद 28.08.2020 को 5 बजे अप. तक जमा किया जाना है रु. 3,91,057.29 +भावी ब्याज 110092. एवं अन्य पभार/व्यय कर्जदार इंजन नं. : G4LAFM758498 केनरा बैंक खाता नं. : 91693020000050, 24.08.2020 और 25.08.2020 को 10.00 श्री रिंक पत्र श्री विजय सिंह निवासी ए-294, गली नं. 2बी, चेसिस नं. : MALA741CLFM140003 आईएफएससी कोड : SYNB0009050. बजे पूर्वा. से 5.00 बजे अप. के बीच अम्बिका विहार, शिव विहार, करावल नगर, गोकलपरा, नई

दिल्ली-110094 दस्तावेज जमा करने की ई-नीलामी की तिथि ई-नीलामी का समय अन्तिम तिथि : क्रम सं. 1 से क्रम सं. 7 : (12:30 बजे अप. से 1:30 बजे अप.) 29.08.2020 २८०८२०२० वर्ने ५०० बजे आप तक

यह बिक्री प्रतिभृति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली 2002 में निर्दिष्ट शर्तों तथा निम्न शर्तों के अधीन होगी: 1) वाहन की बिक्री अधिभार, यदि कोई हो, सहित ''जैसा है जहां है तथा जो भी वहां हैं आधार'' पर की जाएगी। बैंक की जानकारी में कोई अधिभार नहीं है।

नीलामी/ बिक्री वेबसाईट www.indianbankseauction.com ''ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक बोली'' होगी। बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि ई-नीलामी बिक्री प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व विस्तृत शर्तों के लिए वेबसाईट देखें।

वाहन का निरीक्षण प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक, सम्बद्ध शाखाओं की पूर्व अनुमित से किया जा सकता है। 4) वाहन को आरक्षित मुल्य से कम में नहीं बेचा जाएगा तथा भाग लेने वाले बोलीदाता नीलामी प्रक्रिया के दौरान अपने प्रस्ताव को आगे बढ़ा सकते हैं।

5) आरक्षित मूल्य के 10% की ईएमडी का भुगतान डिमांड ड्राफ्ट द्वारा अथवा सम्बद्ध शाखाओं के प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक के पक्ष में स्तम्भ 6 में उपर्युक्त विवरणों के अनुसार केनरा बैंक के खाता में क्रेडिट के लिए आरटीजीएस/ एनईएफटी/ निधिअंतरण द्वारा किया जा सकता है।

् इच्छुक बोलीदाता के पास वैध डिजीटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र तथा ई-मेल पता होना चाहिए। डिजीटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र से संबंधित विवरणों के लिए कृपया सेवा प्रदाता मैसर्स कैनबैंक कम्प्युटर सर्विस लि (मैसर्स कैनबैंक कम्प्युटर सर्विसेज लिमिटेड. श्री प्रताप कांजीलाल एवं डी.पी. पखारे (मो. 9832952602/9911293517/8898418010/080-23469665/9480691777, ई-मेल आईडी : ccsleauction@gmail.com) सं. 218, जे.पी. रॉयल, प्रथम तेल, सैम्पिग रोड, मल्लेश्वर, वेबसाइट https://indianbankseauction.com से सम्पर्क करें। इंएमडी राशि के भृगतान की तिथि को तत्काल बोलीदाता (यदि वैध डिजीटल हस्ताक्षर नहीं हो) डिजिटल हस्ताक्षर प्राप्त करने के लिए उक्त सेवा पदाता से संपर्क करें।

7) ईएमडी के भुगतान के बाद इच्छुक बोलीदाता को केनरा बैंक की उपर्युक्त सम्बद्ध शाखा के पास हार्थों–हाथ या ईमेल द्वारा 28.08.2020 के 5.00 बजे अप. से पूर्व अधोलिखित दस्तावेजों/विवरणों को जमा करना होगाः(1) ईएमडी राशि के डिमांड ड्राफ्ट/ पे आर्डर, यदि आरटीजीएस/ एनईएफटी द्वारा भुगतान किया गया हो, यूटीआर नं. के साथ उसकी पावती रसीद।(2) पैन कार्ड, आईडी प्रूफ तथा आवास के प्रमाण की फोटो कॉपी। लेकिन, सफल बोलीदाता को शेष 25% बोली राशि के भुगतान के समय में बैंक के पास इसके मूल दस्तावेजों को जमा करना होगा,(3) बोलीदाता का नाम, संपर्क सं., पता, ईमेल आईडी,(4) ईएमडी के ऑन लाइन रिफंड के लिए संविदाकार का बैंक खाता का विवरण।

इच्छक बोलीदाता को पोर्टल www.indianbankseauction.com पर अपना नाम पंजीकृत करना होगा तथा निःशुल्क युजर आईडी तथा पास्चर्ड प्राप्त करना होगा। संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाता मैसर्स कैनवैंक कम्प्युटर सर्विस लि. (भैसर्स कैनबैंक कम्प्यटर सर्विसेज लिमिटेड. श्री प्रताप कांजीलाल एवं डी.पी. पखारे (मो. 9832952602/9911293517/8898418010/080-23469665/9480691777, ई-मेल आईडी : ccsleauction@gmail.com) सं. 218, जे.पी. रॉयल, प्रथम तल, सैम्पिग रोड, मल्लेश्वर, वेबसाइट https://indianbankseauction.com से ई-नीलामी पर ऑन लाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।

असफल बोलीदाता द्वारा जमा की गई ईएमडी बिक्री के निपटारे के 2 दिनों के भीतर उन्हें वापस लौटा दी जाएगी। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। 10) नीलामी उक्त आरक्षित मूल्य पर शुरू होगी। बोलीदाता रु. 10,000/– के गुणक में अपनी बोली में सुधार कर सकते हैं। जो बोली दाता 'ऑनलाइन' नीलामी की समाप्ति पर उच्चतम बोली (आरक्षित मूल्य से कम नहीं) जमा करते हैं

12) लागू होने वाले कॉन्वीयन्स, स्टाम्प इ्यूटी तथा पंजीकरण चार्जेज आदि का भुगतान केवल सफल बोलीदाता को ही करना होगा।

13) प्राधिकृत अधिकारी को उसका कारण बताए बिना ई-नीलामी को निरस्त/ स्थिनत करने अथवा उसकी शर्तों को परिवर्तित करने का अधिकार है।

14) यदि कोई ऐसे बोलीदाता हों जिनके पास इन्टरनेट की सुविधा नहीं हो किन्तु वे ई-नीलामी में भाग लेने के इच्छूक हों, वे सम्बन्धित (क्र.सं. 1 पर वाहन हेतु) केनरा बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य दिल्ली, अथवा केनरा बैंक, एनएससी पूसा शाखा, दिल्ली, तथा (वाहन सं. 2 एवं 3) क्षेत्रीय कार्यालय मध्य दिल्ली केनरा बैंक सिविक सेंटर मिंटो रोड, नई दिल्ली तथा (वाहन सं. 4 से 7 हेतु) केनरा बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय मध्य दिल्ली कार्यालय, दिल्ली या (ई-सिंडीकेट बैंक) निर्माण विहार शाखा, नई दिल्ली-110092 से सम्पर्क करें जो सविधा केन्द्र के रूप में सभी आवश्यक व्यवस्था करेंगे।

।5) बोलीदाता को टाइटल, विस्तार, क्षेत्रफल, बकाये आदि के संदर्भ में ड्यू डिलिजेन्स तथा सम्पत्ति का भौतिक निरीक्षण करना होगा। बोली जमा करने के बाद बैंक द्वारा किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जायेगा।

9897929086) दूरभाष नं. : 011-25848197 ई-मेल आईडी : cb19121@canarabank.com तथा क्रम सं. 2-3 पर वाहन हेतु : श्रीमती रुचिता अग्रवाल (विरिष्ठ प्रबन्धक), केनरा बैंक, सिविक सेंटर मिंटो रोड शाखा, नई दिल्ली-110002 (दूरभाष नं. : 011- 23219169) ई-मेल आईडी : cb19169@canarabank.com. क्रम सं. 4-7 पर वाहन हेतु : श्री अनिल कश्यम (मुख्य प्रबन्धक) केनरा बैंक, निर्माण विहार शाखा, नई दिल्ली-110092, मोबाइल : 9968309050 (लैण्ड लाइन : 011-22540476) ई-मेल : cb19050@canarabank.com

विशेष निर्देश/चेतावनीः

अंतिम मिनट/सैकण्ड में अपने स्वयं के हित में बोलीदाता बोली करने से बचें। न तो केनरा बैंक न ही सेवा प्रदाता किसी चुक/ विफलता (इंटरनेट फैल्योर, पावर फैल्योर आदि के लिए विक्रेता की ओर से उत्तरदायीनहीं होंगे। इस प्रकार की आकस्मिक परिस्थितयों से बचने के लिए बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वांछित बैक अप विद्युत आपुर्ति जैसी सभी आवश्यक व्यवस्था/ विकल्प का प्रावधान कर लें ताकि वे इस प्रकार की परिस्थिति से निपट सकें तथा नीलामी में सफलतापूर्वक भाग ले सकें।

तिथि: 24.07.2020, स्थान: नई दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक

उन्हें सफल बोलीदाता घोषित किया जाएगा। बिक्री की पुष्टि सफल बोलीदाता के पक्ष में की जाएगी जो प्रतिभृति, क्रेडीटर की पुष्टि के अधीन होगी।

11) सफल बोलीदाता को सफल बोलीदाता के रूप में उनकी घोषणा के तत्काल बाद 25% बिक्री मुल्य (पूर्व-प्रदत्त ईएमडी सहित) का भुगतान करना होगा तथा शेष राशि का भुगतान प्रतिभूत क्रेडीटर के पास 15 दिनों के भीतर किया जाएगा। यदि सफल बोलीदाता निर्धारित अवधि में भगतान नहीं करते हैं तो उनके द्वारा जमा की गई राशि बिना कारण बताए प्राधिकत अधिकारी द्वारा जब्त कर ली जाएगी तथा संपत्ति की फिर से बिक्री की जाएगी।

ı6) अधिक विवरणों के लिए अधोलिखित शाखा के विवरणों के अनुसार केनरा बैंक की संबंधित शाखाओं के प्राधिकृत अधिकारी से सम्पर्क करें।

क्रम सं. 1 पर वाहन हेतु : 1. सुश्री रिश्म त्रिपाठी, चरिष्ठ प्रबन्धेक (मोबाइल नं. 8130633343), श्रीमती नेहा चेनानी, सहायक प्रबन्धक (मोबाइल नं. : 9582236696) तथा श्रीमती ज्योत्स्ना दिमरी, क्रेडिट अधिकारी (मोबाइल नं.